

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 18, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. एफ ए-6-3-2015-1-पांच, (41).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर को कॉलम (03) में विनिर्दिष्ट संभाग के लिये अतिरिक्त सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है तथा संभाग में लंबित तथा उद्भूत होने वाले कर निर्धारण प्रकरणों को निपटाने की शक्तियां प्रदान करती है। यह उत्तरदायित्व उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त होगा, अर्थात्:—

अ. क्र.	सहायक आयुक्त का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	संभाग
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती विनीता शर्मा, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल परिक्षेत्र (म. प्र.).	भोपाल संभाग-1 एवं 2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. एफ ए-6-3-2015-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-6-3-2015-1-पांच, (41), दिनांक 9 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 9th December 2015

No. F-A-6-3-2015-V-1-(41).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, appoints the Assistant Commissioner of Commercial Tax mentioned in Column (2) of the table below as Additional Assistant Commissioner for the Division specified in column (3) against her name and confers the powers to dispose of the assessment cases pending or arising in the division. This responsibility shall be in addition to her present responsibilities namely:—

S. No. (1)	Name of the Assistant Commissioner and present posting (2)	Division (3)
1	Smt. Vinita Sharma, Assistant Commissioner, Commercial Tax, Zone Bhopal (M.P.).	Bhopal Division-01 and 02

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.